



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]
No. 253]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2012/कार्तिक 21, 1934
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2012/KARTIKA 21, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2012

सं. 29 (आरई-2012)/2009—2014

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, खंड-1 (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) के परिशिष्ट 25ख में बैंक गारंटी (बी जी)/विधिक वचनबद्धता (एल यू टी) से संबंधित संशोधन ।

फा. सं. 01/94/180/238/एएम 11/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2009—2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खंड-1) (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) 2009—2014 के परिशिष्ट 25ख से संलग्न दिशा निर्देशों हेतु टिप्पणी में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

2. बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित करने के मामले में दिशा निर्देश हेतु मौजूदा टिप्पणी-1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“ बैंक गारंटी/विधिक करार, जमानती बैंक (प्रत्याभूतिदाता)/आयातक/निर्यातक (पार्टी) द्वारा उस राशि के जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 या राज्य के अधिनियम जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जाएगी । ”

3. दिशानिर्देशों हेतु टिप्पणी की टिप्पणी संख्या 4 व 5 में आने वाले “ बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता ” वाक्यांश में से “ बैंक गारंटी/ ” को हटा दिया जाएगा और केवल “ विधिक वचनबद्धता ” रहेगी ।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :

बैंक गारंटी (बी. जी.) के लिए जमानती बैंक (प्रत्याभूतिदाता) द्वारा तथा विधिक करार के लिए निर्यातक/आयातक द्वारा निष्पादन करने की आवश्यकता होगी ।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 12th November, 2012

No. 29 (RE-2012)/2009—2014**Subject : Amendment in Appendix 25B HBP Vol. I (Appendices and Aayat Niryat Forms) regarding of Bank Guarantee (BG)/Legal Agreement (LUT).**

F. No. 01/94/180/238/AM 11/PC-4.—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009—2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Note for Guidance attached to the Appendix 25B of Handbook of Procedures (Vol. 1) (Appendices and Aayat Niryat Forms) 2009—2014 :

2. The existing Note 1 for Guidance in the matter of executing BG/LUT shall be substituted by the following :

“The Bank Guarantee/Legal Agreement is to be executed by the surety Bank (Guarantor)/importer/exporter (party) on a non-judicial stamp paper an amount as may be prescribed by the concerned State Government under the Indian Stamp Act, 1899 or State Act, as the case may be.”

3. In the phrase “B. G./LUT” appearing in Notes 4 and 5 of the Note for Guidance, “BG/” shall be deleted and only “LUT” would remain.

Effect of this Public Notice :

Bank Guarantee (B.G.) would required execution by the surety Bank (Guarantor) and LUT by Exporter/Importer.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade